

व्याख्या— विजय तथा साहिल का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{40}$

साहिल तथा रंजीत का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{48}$

रंजीत तथा विजय का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{60}$

$$\therefore \text{ तीनों का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{40} + \frac{1}{48} + \frac{1}{60} \right)$$


$$= \frac{1}{2} \left(\frac{6+5+4}{240} \right) = \frac{15}{2 \times 240}$$

$$= \frac{1}{32}$$

$$\therefore \text{ तीनों द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या} \\ = \frac{1}{\frac{1}{32}} \Rightarrow 32 \text{ दिन}$$

Trick—

माना कुल कार्य = 240



$$\therefore \text{ एक दिन का कार्य} = 6$$

$$\therefore 2 (\text{विजय} + \text{साहिल} + \text{रंजीत}) \text{ का एक दिन का कार्य} \\ = 6 + 5 + 4 \Rightarrow 15$$

$$\therefore \text{ विजय, साहिल एवं रंजीत का एक दिन का कार्य} = \frac{15}{2}$$

$$\therefore 240 \text{ कार्य को खत्म करने में लगे दिनों की संख्या} = \frac{240}{\frac{15}{2}}$$

$$= 2 \times \frac{240}{15}$$

$$= 2 \times 16 \Rightarrow 32 \text{ दिन}$$

Trick—

माना किसी कार्य को समाप्त करने में A, B तथा C दिन लगते हैं।
 \therefore तीनों द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या

$$= \frac{2ABC}{AB+BC+CA}$$

$$= \frac{2 \times 40 \times 48 \times 60}{40 \times 48 + 48 \times 60 + 60 \times 40}$$

$$= \frac{2 \times 40 \times 48 \times 60}{1920 + 2880 + 2400}$$

$$= \frac{230400}{7200} \Rightarrow 32 \text{ दिन}$$

10. A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 12 दिन में करता है और C उसी काम को 15 दिन में करता है। A, B और C तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?

(a) 6 दिन

(b) $5 \frac{1}{4}$ दिन

(c) $4 \frac{4}{11}$ दिन

(d) 4 दिन

S.S.C. ऑफिशल स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (III-पार्टी)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

व्याख्या— A का 1 दिन का काम = $\frac{1}{10}$

B का 1 दिन का काम = $\frac{1}{12}$

C का 1 दिन का काम = $\frac{1}{15}$

$$(A+B+C) \text{ का 1 दिन का काम} = \frac{1}{10} + \frac{1}{12} + \frac{1}{15}$$

$$= \frac{6+5+4}{60}$$

$$= \frac{15}{60} \Rightarrow \frac{1}{4}$$

$\therefore (A+B+C)$ द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय

$$= \frac{1}{\frac{1}{4}}$$

$$= 4 \text{ दिन}$$

Trick—

यदि A, B तथा C किसी काम को क्रमशः x, y तथा z दिन में करते हों, तो तीनों को मिलकर उस काम को समाप्त करने में

$$\text{लगा समय} = \frac{xyz}{yz+zx+xy}$$

अथवा

$$\text{काम समाप्त करने में लगा समय} = \frac{l}{\frac{l}{x} + \frac{l}{y} + \frac{l}{z}}$$

(यहां l = x, y तथा z का ल.स.प. है)

प्रश्नानुसार

x = 10 दिन, y = 12 दिन तथा z = 15 दिन

$\therefore (A+B+C)$ द्वारा काम समाप्त करने में लगा समय

$$= \frac{10 \times 12 \times 15}{12 \times 15 + 10 \times 15 + 10 \times 12}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{10 \times 12 \times 15}{180 + 150 + 120} \\
 &= \frac{10 \times 12 \times 15}{450} \\
 &= \frac{1800}{450} \Rightarrow 4 \text{ दिन}
 \end{aligned}$$

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017(III-पाती)
उत्तर-(b)

व्याख्या — ∵ A द्वारा 9 घंटे में टाइप किए गए पृष्ठ = 36
 $\therefore A$ द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पृष्ठ = $\frac{36}{9} \Rightarrow 4$
तथा B द्वारा 5 घंटे में टाइप किए गए पृष्ठ = 40
 $\therefore B$ द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पृष्ठ = $\frac{40}{5} \Rightarrow 8$
A द्वारा प्रथम 60 पृष्ठ टाइप करने में लगा समय = $\frac{60}{4} \Rightarrow 15$
आखिरी के 60 पृष्ठ में दोनों टाइप करते हैं।
दोनों 1 घंटे में $8 + 4 = 12$ पृष्ठ टाइप करेंगे। अतः 60 पृष्ठ में
द्वारा लिया गया समय = $\frac{60}{12} \Rightarrow 5$ घंटे
अतः 120 पृष्ठ की पूरी किताब को टाइप करने में लगा समय
 $15 + 5 = 20$ घंटा

S.S.C. ऑफलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016(III-पारी)
उत्तर—(c)

व्याख्या— B द्वारा कार्य का $\frac{1}{3}$ भाग समाप्त करने में लगा समय
 $= 12$ दिन
 \therefore B द्वारा कार्य को पूरा समाप्त करने में लगा समय $= \frac{12}{\frac{1}{3}}$
 $= 12 \times 3$
 $= 36$ दिन

$$B \text{ का } 1 \text{ दिन का कार्य} = \frac{1}{36}$$

$$(A + B) \text{ का } 1 \text{ दिन का कार्य} = \frac{1}{24}$$

$$\therefore A \text{ का } 1 \text{ दिन का कार्य} = \frac{1}{24} - \frac{1}{36}$$

$$= \frac{3-2}{72} \Rightarrow \frac{1}{72}$$

प्रश्न से

$$\text{शेष कार्य} = 1 - \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{2}{3}$$

∴ A द्वारा कार्य का $\frac{1}{72}$ भाग समाप्त करने में लगा समय
= 1 दिन

$$\therefore A \text{ द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय} = \frac{1}{\frac{1}{72}} \Rightarrow 72 \text{ दिन}$$

$$\therefore A \text{ द्वारा कार्य का } \frac{2}{3} \text{ भाग समाप्त करने में लगा समय} \\ = 72 \times \frac{2}{3} \Rightarrow 48 \text{ दिन}$$

Trick—

(A + B) कार्य को समाप्त कर सकते हैं = 24 दिन में

B अकेले कार्य को समाप्त करेगा = $12 \times 3 \Rightarrow 36$ दिन में

$$A \text{ को अकेले पूरा कार्य समाप्त करेगा} = \frac{36 \times 24}{36 - 24} \\ = 72 \text{ दिन में}$$

∴ A को केवल शेष कार्य करना है।

$$[\text{शेष कार्य} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}]$$

$$\therefore \text{लगे दिनों की संख्या} = 72 \times \frac{2}{3} \Rightarrow 48 \text{ दिन}$$

13. A, B और C किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि A उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और B 5 घंटे में करता है, तो C उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा?

(a) $5\frac{1}{2}$ ઘંટે

(b) $7\frac{1}{2}$ ਘੰਟੇ

(c) 9 ઘણ્ટે

(d) $4\frac{1}{2}$ ઘણ્ટે

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

व्याख्या— C द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य = $\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{5} \right)$

32. रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कम्प्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में करता है। 110 पृष्ठों का कार्य दो अलग-अलग कम्प्यूटरों पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा?
- 7 घंटे 30 मिनट
 - 8 घंटे
 - 8 घंटे 15 मिनट
 - 8 घंटे 25 मिनट

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर-(c)

व्याख्या—रोनाल्ड द्वारा कम्प्यूटर पर 1 घंटे में टाइप पृष्ठों की संख्या = $\frac{32}{6}$

एलन द्वारा 1 घंटे में टाइप पृष्ठों की संख्या = $\frac{40}{5} \Rightarrow 8$

∴ दोनों द्वारा मिलकर अलग-अलग कम्प्यूटर पर एक घंटे में किया गया कार्य = $\frac{32}{6} + 8$

$$= \frac{32 + 48}{6} = \frac{80}{6} \Rightarrow \frac{40}{3} \text{ पृष्ठ}$$

∴ 110 पृष्ठों को टाइप करने में लगा समय = $\frac{110}{\frac{40}{3}} = \frac{110 \times 3}{40} \Rightarrow \frac{33}{4}$

$$= 8\frac{1}{4} \Rightarrow 8 \text{ घंटे } 15 \text{ मिनट}$$

33. A और B मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, B और C मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। A और C मिलकर उसे 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें, तो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे?

- 8 दिन
- 16 दिन
- 30 दिन
- 32 दिन

S.S.C. ऑफिलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (II-पारी)

उत्तर-(b)

व्याख्या—(A + B) का 1 दिन का काम = $\frac{1}{36}$

(B + C) का 1 दिन का काम = $\frac{1}{24}$

(A + C) का 1 दिन का काम = $\frac{1}{18}$

2(A + B + C) का 1 दिन का काम = $\frac{1}{36} + \frac{1}{24} + \frac{1}{18}$

$$= \frac{2 + 3 + 4}{72} \Rightarrow \frac{9}{72}$$

$$\therefore A + B + C \text{ का } 1 \text{ दिन का काम} = \frac{9}{72 \times 2} \Rightarrow \frac{1}{16}$$

$$\therefore A + B + C \text{ को पूरा काम करने में लगा समय} = \frac{1}{\frac{1}{16}} \Rightarrow 16 \text{ दिन}$$

Trick—

यदि (A + B) किसी काम को x दिन में, (B + C) उसे y तथा (A + C) उसी काम को z दिन में करते हैं, तो (A + B + C) द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय = $\frac{2xyz}{yz + zx + xy}$

प्रश्नानुसार

$$x = 36 \text{ दिन}, y = 24 \text{ दिन}, z = 18 \text{ दिन}$$

$$\therefore (A + B + C) \text{ द्वारा काम पूरा करने में लगा समय}$$

$$= \frac{2 \times 36 \times 24 \times 18}{24 \times 18 + 36 \times 18 + 36 \times 24}$$

$$= \frac{31104}{432 + 648 + 864}$$

$$= \frac{31104}{1944} \Rightarrow 16 \text{ दिन}$$

34. A तथा B मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा A अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो B अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा?

- $11\frac{1}{3}$ दिन
- $12\frac{3}{5}$ दिन
- $13\frac{1}{3}$ दिन
- $16\frac{4}{5}$ दिन

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2004

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010

S.S.C. (डाटा एंट्री ऑपरेटर) परीक्षा, 2008

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2012

उत्तर-(c)

व्याख्या—माना A का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{8}$

$$B \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{1}{5} - \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{3}{40}$$

$$\therefore B \text{ को पूरा कार्य करने में लगा समय} = \frac{40}{3} \Rightarrow 13\frac{1}{3} \text{ दिन}$$

Trick—

$$B \text{ को अकेले कार्य पूरा करने में लगा समय} = \frac{xy}{y - x}$$

$$= \frac{5 \times 8}{8 - 5} \Rightarrow 13\frac{1}{3} \text{ दिन}$$

व्याख्या— माना x व्यक्ति कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं।

प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned}x \times 40 &= (x + 45) \times 25 \\40x &= 25x + 45 \times 25 \\(40 - 25)x &= 45 \times 25 \\15x &= 45 \times 25 \\x &= \frac{45 \times 25}{15} \Rightarrow 75 \text{ व्यक्ति}\end{aligned}$$

58. यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयां बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयां बनाएंगे?

(a) 20 चटाइयां (b) 10 चटाइयां

(c) 15 चटाइयां (d) 5 चटाइयां

S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

S.S.C. अॅमलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (III-पार्टी)
उत्तर—(a)

व्याख्या— माना 10 व्यक्ति 10 घंटे में x चटाइयां बनाएंगे।

व्यक्ति	घंटे	चटाइयां
$\downarrow 5$	$\downarrow 5$	$\downarrow 5$
$\downarrow 10$	$\downarrow 10$	$\downarrow x$

$$\frac{x}{5} = \frac{10}{5} \times \frac{10}{5}$$

$$x = \frac{5 \times 10 \times 10}{5 \times 5} \Rightarrow 20 \text{ चटाइयां}$$

Trick—

$$\frac{m_1 d_1}{w_1} = \frac{m_2 d_2}{w_2}$$

$$\frac{5 \times 5}{5} = \frac{10 \times 10}{w_2}$$

$$w_2 = \frac{5 \times 10 \times 10}{5 \times 5}$$

$$w_2 = 20$$

59. कुछ बढ़ियों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वक्त दिया। परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। बढ़ियों की मूल संख्या थी –

(a) 24 (b) 20 (c) 16 (d) 18

S.S.C. F.C.I. परीक्षा, 2012

उत्तर—(b)

व्याख्या— माना प्रारंभ में बढ़ियों की संख्या x थी।

5 के अनुपस्थित होने पर शेष बचे बढ़ियों की संख्या $= (x - 5)$

प्रश्नानुसार

x बढ़ियों का 9 दिन का काम $= (x - 5)$ बढ़ियों का 12 दिन का काम

या $x \times 9 = (x - 5) \times 12$

$$9x = 12x - 60$$

$$9x - 12x = -60$$

$$3x = 60$$

$$x = \frac{60}{3} \Rightarrow 20$$

अतः प्रारंभ में 20 बढ़ियों थे।

60. 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा?

(a) 15 (b) 12
(c) 14 (d) 13

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2015

उत्तर—(b)

व्याख्या— 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं।

$$\therefore 20 \text{ आदमी द्वारा } 3 \text{ दिन में किया गया काम} = \frac{3}{18} \text{ भाग}$$

$$= \frac{1}{6} \text{ भाग}$$

$$\text{शेष भाग} = 1 - \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{5}{6} \text{ भाग}$$

$$\text{सूत्र} \quad \frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2}$$

$$\frac{20 \times 3}{\frac{1}{6}} = \frac{25 \times D_2}{\frac{5}{6}} \quad (\because M_2 = 20 + 5 = 25 \text{ आदमी})$$

$$20 \times 3 \times 6 = 25 \times \frac{6}{5} \times D_2$$

$$D_2 = \frac{20 \times 3 \times 6 \times 5}{25 \times 6} \Rightarrow 12 \text{ दिन}$$

Trick— कुल काम $= 20 \times 18 \Rightarrow 360$

3 दिन में किया गया काम $= 3 \times 20 \Rightarrow 60$

शेष काम $= 360 - 60 \Rightarrow 300$

3 दिन बाद कुल व्यक्ति $= 20 + 5 \Rightarrow 25$ व्यक्ति

शेष काम पूरा होने में लगा समय $= \frac{300}{25} \Rightarrow 12$ दिन

61. एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल एक-चौथाई काम पूरा हुआ है। तबनुसार, वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए, उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे?

(a) 75 (b) 100
(c) 125 (d) 50

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

व्याख्या— 4 पुरुष का कार्य = 10 बच्चे का कार्य
 $\therefore 1 \text{ पुरुष का कार्य} = \frac{5}{2} \text{ बच्चे का कार्य}$ (i)

तथा 6 महिला का कार्य = 10 बच्चे का कार्य
 $\therefore 1 \text{ महिला का कार्य} = \frac{10}{6} \Rightarrow \frac{5}{3} \text{ बच्चे का कार्य}$ (ii)
 $\because 10 \text{ बच्चे किसी कार्य को करते हैं} = 5 \text{ दिन में}$
 $\therefore 1 \text{ बच्चा कार्य को करेगा} = 5 \times 10$
 $= 50 \text{ दिन में}$ (iii)

1 पुरुष + 1 महिला + 5 बच्चों का कार्य = $\frac{5}{2} \text{ बच्चे} + \frac{5}{3} \text{ बच्चे} + 5$
 $= \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{3} + 5\right) \text{ बच्चे}$
 $= \frac{15 + 10 + 30}{6} \text{ बच्चे}$
 $= \frac{55}{6} \text{ बच्चे}$

\therefore समी. (i) से

$\frac{55}{6} \text{ बच्चे कार्य को करेंगे} = \frac{50}{55} \times 6$
 $= \frac{60}{11} \text{ दिन}$
 $= 5 \frac{5}{11} \text{ दिन}$

प्रकार-5

जब काम को बारी-बारी पूरा किया जाए

105. A, B और C क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर 1 दिन के लिए काम करते हैं, फिर A और B काम छोड़ देते हैं। अकेले काम करते हुए C को शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?
- (a) 9 (b) 6 (c) 12 (d) 10

S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 22 अगस्त, 2017 (III-पार्टी)
उत्तर-(c)

व्याख्या— A का एक दिन का काम = $\frac{1}{6}$
B का एक दिन का काम = $\frac{1}{9}$
C का एक दिन का काम = $\frac{1}{18}$

(A + B + C) का एक दिन का काम = $\frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18}$
 $= \frac{3+2+1}{18} = \frac{6}{18} \Rightarrow \frac{1}{3}$

शेष काम = $1 - \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{2}{3}$ भाग
 $\therefore C$, काम का $\frac{1}{18}$ भाग करता है = 1 दिन में

$\therefore C$, अकेले शेष $\left(\frac{2}{3}\right)$ काम को करेगा = $\frac{1}{18} \times \frac{2}{3}$
 $= 18 \times \frac{2}{3} \Rightarrow 12 \text{ दिनों में}$

Trick-
माना कुल 18 काम हैं

18
↓
A: $\frac{18}{6}=3$ B: $\frac{18}{9}=2$ C: $\frac{18}{18}=1$

\therefore शेष काम = $18 - (3 + 2 + 1)$
 $= 18 - 6 \Rightarrow 12$
 $\because C$, एक काम करता है = 1 दिन में
 $\therefore C$, शेष 12 काम करेगा = $1 \times 12 \Rightarrow 12 \text{ दिनों में}$

106. कमल एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जिसे देबाशीष 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देबाशीष से शुरू करके एक-एक दिन छोड़ कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा?
- (a) $10\frac{2}{3}$ दिन (b) $10\frac{5}{6}$ दिन
(c) $11\frac{3}{4}$ दिन (d) $11\frac{2}{7}$ दिन

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2006, 2011, 2014
उत्तर-(b)

व्याख्या— कमल का 1 दिन का कार्य = $\frac{1}{12}$
देबाशीष का 1 दिन का कार्य = $\frac{1}{10}$

कमल और देबाशीष का 2 दिन का कार्य = $\frac{1}{12} + \frac{1}{10}$
 $= \frac{5+6}{60} \Rightarrow \frac{11}{60}$ भाग

\therefore कमल और देबाशीष का 10 दिन का कार्य = $\frac{11}{60} \times 5$
 $= \frac{11}{12}$ भाग

\therefore शेष कार्य = $1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12}$ भाग

\therefore कमल $\frac{1}{12}$ भाग कार्य करता है 1 दिन में

\therefore देबाशीष $\frac{1}{12}$ भाग कार्य करेगा = $10 \times \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{5}{6}$ दिन में

\therefore कार्य खत्म होगा = $10 + \frac{5}{6} \Rightarrow 10\frac{5}{6}$ दिन में

131. S, T तथा U मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि S, T तथा U की कार्यकुशलता का अनुपात क्रमशः 20 : 15 : 12 है, तो U अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

- (a) $\frac{195}{2}$ (b) $\frac{235}{2}$ (c) $\frac{225}{2}$ (d) $\frac{215}{2}$

S.S.C. ऑफिसर CHSL (T-I) 8 मार्च, 2018 (I-पार्टी)

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर-(b)

व्याख्या— S : T : U

कार्यक्षमता \rightarrow 20 : 15 : 12

समयानुपात \rightarrow $\frac{1}{20} : \frac{1}{15} : \frac{1}{12}$

$$\text{या } \frac{60}{20} : \frac{60}{15} : \frac{60}{12}$$

$$\text{या } 3 : 4 : 5$$

माना S, T तथा U उस कार्य को अकेले क्रमशः $3x, 4x$ तथा $5x$ दिन में करते हैं

$$\begin{aligned} \therefore \text{तीनों का एक दिन का कार्य} &= \frac{1}{3x} + \frac{1}{4x} + \frac{1}{5x} \\ &= \frac{20+15+12}{60x} \Rightarrow \frac{47}{60x} \text{ भाग} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{तीनों को कार्य पूरा करने में लगा समय} = \frac{60x}{47}$$

$$\therefore \frac{60x}{47} = 30 \text{ (प्रश्नानुसार)}$$

$$x = \frac{47}{2}$$

अतः 'U' अकेला उस कार्य को पूरा करेगा $= 5x$

$$= 5 \times \frac{47}{2} \Rightarrow \frac{235}{2} \text{ दिन में}$$

132. B जितना कार्य एक दिन में करता है, A उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। तदनुसार, यदि B अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता हो, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं?

- (a) $10\frac{1}{5}$ दिन (b) $11\frac{1}{5}$ दिन
 (c) $5\frac{1}{5}$ दिन (d) $7\frac{1}{5}$ दिन

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2013

उत्तर-(d)

व्याख्या— B जितना कार्य 1 दिन में करता है, A उसकी तुलना में

आधा ज्यादा अर्थात् $\frac{3}{2}$ कार्य करता है।

\therefore यदि B अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तब वही

$$\text{कार्य A करेगा} = 18 \times \frac{2}{3} \Rightarrow 12 \text{ दिन में}$$

अब दोनों द्वारा मिलकर कार्य को खत्म करने में लगा समय

$$= 1 / \frac{1}{12} + \frac{1}{18}$$

$$= 1 / \frac{3+2}{36}$$

$$= \frac{36}{5} \Rightarrow 7\frac{1}{5} \text{ दिन}$$

Trick— A : B

कार्यक्षमतानुपात \rightarrow 3 : 2

समयानुपात \rightarrow 2 : 3

$$\therefore 3x = 18$$

$$x = 6$$

$$\therefore 2x = 2 \times 6 \Rightarrow 12$$

$$\begin{aligned} \text{A व B को मिलकर कार्य करने में लगा समय} &= \frac{18 \times 12}{18+12} \\ &= 7\frac{1}{5} \text{ दिन} \end{aligned}$$

133. A किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि B एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। C के एक दिन के कार्य को B एक दिन में आधा कर सकता है। कार्य में उनकी दक्षता का अनुपात है—

- (a) 1 : 2 : 4 (b) 2 : 1 : 4
 (c) 4 : 2 : 1 (d) 2 : 4 : 1

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर-(a)

व्याख्या— माना पूरा कार्य x है।

$$A \text{ का एक दिन का कार्य} = \frac{x}{2}$$

$$B \text{ का एक दिन का कार्य} = x$$

तथा C का एक दिन का कार्य = B का 2 दिन का कार्य = $2x$

$$\begin{aligned} \therefore A, B \text{ तथा } C \text{ के कार्य दक्षता का अनुपात} &= \frac{x}{2} : x : 2x \\ &= x : 2x : 4x \\ &= 1 : 2 : 4 \end{aligned}$$

134. A तथा B मिलकर एक कार्य का $\frac{11}{19}$ भाग कर सकते हैं।

उतने ही समय में B तथा C मिलकर उसी कार्य का $\frac{14}{19}$ भाग कर सकते हैं। तदनुसार, A, B तथा C के कार्य करने का अनुपात क्या होगा?

- (a) 3 : 4 : 5 (b) 4 : 5 : 7
 (c) 5 : 6 : 8 (d) 5 : 7 : 8

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2011

उत्तर-(c)

Trick-

माना कि A उस कार्य को x दिन में करता है।

प्रश्नानुसार

$$\therefore \text{B द्वारा अकेले काम समाप्त करने में लगा समय} = \frac{16x}{x-16}$$

$$\because \frac{\text{A द्वारा काम पूरा करने में लगा समय}}{\text{B द्वारा काम पूरा करने में लगा समय}} = \frac{\text{B की क्षमता}}{\text{A की क्षमता}}$$

$$\text{या } \frac{x}{\frac{16x}{16-x}} = \frac{B}{2B}$$

$$\text{या } \frac{16-x}{16} = \frac{1}{2}$$

$$\text{या } x = 24 \text{ दिन}$$

अर्थात् A उस कार्य को अकेले 24 दिन में पूरा करेगा।

Trick-

A : B

कार्यक्षमतानुपात $\rightarrow 2 : 1$

समयानुपात $\rightarrow 1 : 2$

माना A, x दिन में तथा B, $2x$ दिन में कार्य समाप्त कर सकता है।

$$(A+B) \text{ को एक साथ कार्य करने में लगा समय} = \frac{xy}{y+x}$$

$$16 = \frac{2x \times x}{2x + x}$$

$$x = 24 \text{ दिन}$$

137. किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दोगुनी तेजी से करता है और औरत एक लड़के से दोगुनी तेजी से करती है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा?

(a) 49

(b) 7

(c) 6

(d) 42

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-II) परीक्षा, 2013

S.S.C. मर्टी टॉसिंग परीक्षा, 2011

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013

उत्तर-(a)

व्याख्या—माना आदमी किसी कार्य को x दिन में करता है।

अतः औरत कार्य को $2x$ दिन में करेगी तथा लड़का कार्य को $4x$ दिन में करेगा।

प्रश्नानुसार

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{4x} = \frac{1}{7}$$

$$\therefore \frac{4+2+1}{4x} = \frac{1}{7}$$

$$\therefore 4x = 7 \times 7 \Rightarrow 49$$

\therefore लड़का कार्य को $4x$ दिन में करता है।

अतः लड़का कार्य को 49 दिन में समाप्त करेगा।

138. A की कार्यक्षमता B की तुलना में आधी है और C, A तथा B द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार, यदि C अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता हो, तो A, B तथा C तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं?

(a) $5\frac{2}{3}$ दिन

(b) $6\frac{2}{3}$ दिन

(c) 6 दिन

(d) 7 दिन

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2011

उत्तर-(b)

व्याख्या— \because C अकेले कार्य को 20 दिन में करता है।

प्रश्नानुसार

(A+B) को कार्य को खत्म करने में लगा कुल दिन

$$= \frac{20}{2} \Rightarrow 10 \text{ दिन}$$

अतः (A+B+C) को कार्य को खत्म करने में लगा समय

$$= \frac{1}{(A+B) \text{ का 1 कार्य} + C \text{ का 1 कार्य}} \text{ का 1 कार्य}$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20}\right)} \Rightarrow \frac{1}{\frac{2+1}{20}} \Rightarrow \frac{1}{\frac{3}{20}}$$

$$= \frac{20}{3} \Rightarrow 6\frac{2}{3} \text{ दिन में}$$

139. A, B से 40% अधिक कार्यक्षमता है। यदि B अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो A अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

(a) 36

(b) 40

(c) 30

(d) 32

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 14 मार्च, 2018 (I-पाली)

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 31 अगस्त, 2016 (II-पाली)

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर-(c)

$$A : B$$

$$\text{कार्यक्षमता} \rightarrow 140 : 100$$

$$\text{या } 7 : 5$$

$$\therefore \text{समयानुपात} \rightarrow 5 : 7$$

$$\therefore \text{समय का 7 भाग} = 42 \text{ दिन}$$

$$\therefore \text{समय का 5 भाग} = \frac{42}{7} \times 5 \Rightarrow 30 \text{ दिन}$$

अतः A अकेला कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा।

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2001, 2010

उत्तर—(c)

$$\begin{aligned}
 \text{व्याख्या} - & \therefore A \text{ द्वारा } 1 \text{ दिन में जोता गया खेत का भाग} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{6} \\
 & = \frac{1}{15} \\
 B \text{ द्वारा } 1 \text{ दिन में जोता गया खेत का भाग} & = \frac{1}{3} \times \frac{1}{10} \\
 & = \frac{1}{30} \\
 \therefore (A+B) \text{ द्वारा } 1 \text{ दिन में जोता गया खेत का भाग} & = \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \\
 & = \frac{1}{10} \\
 \therefore (A+B) \text{ द्वारा पूरा खेत जोतने में लगा समय} & = 10 \text{ दिन} \\
 \therefore (A+B) \text{ द्वारा } \frac{4}{5} \text{ भाग खेत जोतने में लगा समय} & = \frac{4}{5} \times 10 \text{ दिन} \\
 & = 8 \text{ दिन}
 \end{aligned}$$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013
S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004

उत्तर—(a)

व्याख्या— A तथा B द्वारा 30 दिन में किया गया कार्य = 1

A तथा B द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{30}$

∴ A तथा B द्वारा 20 दिन में किया गया कार्य = $\frac{20}{30} \Rightarrow \frac{2}{3}$

∴ शेष कार्य = $1 - \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{1}{3}$ भाग

∴ प्रश्न से A द्वारा 20 दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{3}$

∴ A कार्य को पूरा करेगा = $20 \times 3 \Rightarrow 60$ दिन में
माना B कार्य को x दिन में पूरा करता है।

$$\therefore \frac{1}{60} + \frac{1}{x} = \frac{1}{30}$$

$$\therefore \frac{1}{x} = \frac{1}{30} - \frac{1}{60} \Rightarrow \frac{60-30}{30 \times 60}$$

$$= \frac{30}{30 \times 60} \Rightarrow 60 \text{ दिन}$$

अतः B कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा।

- 163.** X एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है और Y 100 दिन में। वे 20 दिन तक मिलकर काम करते हैं और फिर Y काम को छोड़ देता है। X द्वारा शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लिए गए?

उत्तर—(d)

$$\therefore X \text{द्वारा } 1 \text{ दिन में किया गया कार्य} = \frac{1}{80}$$

माना X , $(20 + A)$ दिन में कार्य पूरा करा करता है।

तथा Y द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य = $\frac{1}{100}$

प्रश्नानुसार

$$\frac{(20+A)}{80} + \frac{20}{100} = 1$$

$$\frac{1}{4} + \frac{A}{80} + \frac{1}{5} = 1$$

$$\frac{A}{80} = 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right)$$

$$= 1 - \frac{9}{20}$$

$$A = \frac{11 \times 80}{20} \Rightarrow 44 \text{ दिन}$$

अतः X शेष कार्य को पुरा करेगा = 44 दिन

- 164.** A किसी कार्य को 24 दिन में, B उसको 9 दिन में तथा C उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। B और C कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है शेष कार्य करने में A को लगा समय था-

उत्तर-(c)

व्याख्या— B और C का एक दिन का कार्य = $\frac{1}{9} + \frac{1}{12}$
 $= \frac{4+3}{36} \Rightarrow \frac{7}{36}$ भाग

$$\therefore \text{हरी द्वारा } 1 \text{ दिन में काटी गई गिरी} = 6 - \frac{7}{2} \Rightarrow \frac{5}{2} \text{ किंग्रा.}$$

$$= 2.5 \text{ किंग्रा.}$$

$$\therefore \text{हरी द्वारा } 10 \text{ किंग्रा. गिरी काटने में लगा समय} = \frac{10}{2.5} \Rightarrow 4 \text{ दिन}$$

171. एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है। हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा?

S.S.C. खात्रीक स्कूलीय परीक्षा - 2008

उत्तर—(c)

व्याख्या—लड़के द्वारा 1 मिनट में उड़ेला गया पानी = $\frac{4}{3}$ लड़की द्वारा 1 मिनट में उड़ेला गया पानी = $\frac{3}{4}$

दोनों द्वारा 1 मिनट में उड़ेला गया पानी = $\frac{3}{4} + \frac{4}{3}$
 $= \frac{25}{12}$ लीटर

$\therefore \frac{25}{12}$ लीटर पानी उड़ेला जाता है 1 मिनट में
 $\therefore 100$ लीटर पानी भरने में लगा समय = $\frac{12}{25} \times 100$
 $= 48$ मिनट

172. A और B मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं जिसे B और C मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। A द्वारा उस पर 5 दिन और B द्वारा 7 दिन करने के बाद C ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। B उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था?

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$$\text{व्याख्या} - A + B \text{ के } 5 \text{ दिन का काम} = \frac{5}{12}$$

$$B + C \text{ के } 2 \text{ दिन का काम} = \frac{2}{16}$$

$$\text{कुल किया गया काम} = \frac{5}{12} + \frac{2}{16} \Rightarrow \frac{13}{24}$$

$$\text{शेष काम} = 1 - \frac{13}{24} \Rightarrow \frac{11}{24}$$

$\frac{11}{24}$ काम के लिए C के द्वारा लिया गया समय = 11 दिन

1 काम के लिए C के द्वारा लिया गया समय = $\frac{11 \times 24}{11} \Rightarrow 24$ दिन

अतः B द्वारा 1 दिन में किया गया काम = $\frac{1}{16} - \frac{1}{24}$

$$= \frac{3-2}{48} \Rightarrow \frac{1}{48}$$

अतः कुल समय = 48 दिन

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

$$\therefore \text{अभीष्ट धनराशि} = \frac{5250}{7} \times \frac{114}{5} \Rightarrow 17,100 \text{ रु.}$$

- 174.** एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमियों तथा 8 औरतों की उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके?

S S C (ज्ञान पंती ऑपरेटर) प्रश्नीका 2009

S S C स्नातक सन्दर्भ परीक्षा 2000

उत्तर—(a)

व्याख्या—माना कि x लड़के काम पर रखने पर कार्य 2 दिन में पूरा हो जाएगा।

अतः प्रश्नानुसार

$$\frac{2}{20} + \frac{8}{30} + \frac{x}{60} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{x}{60} = \frac{1}{2} - \frac{2}{20} - \frac{8}{30}$$

$$= \frac{30 - 6 - 16}{60}$$

$$\therefore x = 8$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(x+6)(x+1)}{(2x+7)} \\
 &= \frac{\left(\frac{2}{3}+6\right)\left(\frac{2}{3}+1\right)}{\left(2 \times \frac{2}{3}+7\right)} \\
 &= \frac{\frac{20}{3} \times \frac{5}{3}}{\frac{25}{3}} = \frac{100}{25} \Rightarrow \frac{4}{3} \text{ घंटे}
 \end{aligned}$$

178. एक दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक को 5,750 रु. पर कुछ दिनों के लिए रखा गया किंतु उन दिनों में से तीन दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे कुल 5000 रु. दिए गए। उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी?

- (a) 125 रु. (b) 250 रु.
 (c) 375 रु. (d) 500 रु.

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

व्याख्या—माना मजदूर की दैनिक मजदूरी x तथा काम करने वाले दिनों की संख्या y थी।

$$x \times y = 5750 \dots\dots\dots (i)$$

अतः प्रश्नानुसार

$$x \times (y-3) = 5000$$

$$xy - 3x = 5000$$

$$5750 - 3x = 5000 \quad [\text{समी (i) से } xy \text{ का मान रखने पर}]$$

$$750 = 3x$$

$$\therefore x = 250 \text{ रु.}$$

Trick- तीन दिन अनुपस्थित रहने पर मजदूरी में कमी

$$= 5750 - 5000 = 750$$

अतः 1 दिन का अधिकतम संभव वेतन $= \frac{750}{3} \Rightarrow 250$ रु.

179. 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। किंतु प्रत्येक 10 वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। कार्य कितने समय में पूरा हुआ होगा?

- (a) $56 \frac{2}{3}$ दिन (b) $53 \frac{1}{3}$ दिन
 (c) 52 दिन (d) 50 दिन

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

व्याख्या—प्रारंभ के दस दिनों में 40 व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य $= \frac{10}{40} \Rightarrow \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned}
 \text{अगले 10 दिनों में } 35 \text{ व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य} &= \frac{35}{40 \times 4} \\
 &= \frac{7}{32}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{अगले 10 दिनों में } 30 \text{ व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य} &= \frac{30}{40 \times 4} \\
 &= \frac{3}{16}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{अगले 10 दिनों में } 25 \text{ व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य} &= \frac{25}{40 \times 4} \\
 &= \frac{5}{32}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{अगले 10 दिनों में } 20 \text{ व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य} &= \frac{20}{40 \times 4} \\
 &= \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{कुल 50 दिनों में हुआ कार्य} &= \frac{1}{4} + \frac{7}{32} + \frac{3}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{8} \\
 &= \frac{30}{32}
 \end{aligned}$$

$$\text{शेष कार्य} = 1 - \frac{30}{32} = \frac{2}{32} \Rightarrow \frac{1}{16}$$

अतः 15 व्यक्तियों द्वारा $\frac{1}{16}$ कार्य करने में लगा समय

$$\begin{aligned}
 &= \frac{40 \times 4 \times 10 \times \frac{1}{16}}{15} \\
 &= \frac{100}{15} \Rightarrow 6 \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

अतः पूरा कार्य करने में लगा समय

$$\begin{aligned}
 &= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 \frac{2}{3} \\
 &= 56 \frac{2}{3} \text{ दिन}
 \end{aligned}$$

Trick- कुल कार्य $= 40 \times 40 \Rightarrow 1600$

प्रथम 10 दिन में किया गया कार्य $= 40 \times 10 \Rightarrow 400$

अगले 10 दिन में किया गया कार्य $= 35 \times 10 \Rightarrow 350$

अगले 10 दिन में किया गया कार्य $= 30 \times 10 \Rightarrow 300$

अगले 10 दिन में किया गया कार्य $= 25 \times 10 \Rightarrow 250$

अगले 10 दिन में किया गया कार्य $= 20 \times 10 \Rightarrow 200$

अगले 50 दिन में किया गया कार्य

$$= 400 + 350 + 300 + 250 + 200 \Rightarrow 1500$$

शेष कार्य $= 1600 - 1500 \Rightarrow 100$ कार्य

$$15 \text{ व्यक्तियों द्वारा लगे दिनों की संख्या} = \frac{100}{15} \Rightarrow 6 \frac{2}{3} \text{ दिन}$$

$$\text{कार्य पूरा करने में लगा समय} = 50 + 6 \frac{2}{3} \Rightarrow 56 \frac{2}{3} \text{ दिन}$$

- 180.** 40 आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिन बाद 10 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं जिससे कार्य 70 दिन में पूरा होता है। 10 आदमियों द्वारा कार्य छोड़कर जाने के दिनों की संख्या कितनी है?

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

व्याख्या— माना 10 आदमी x दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं।
प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned}
 40 \times (60 - x) &= (40 - 10) \times (70 - x) \\
 40(60 - x) &= 30(70 - x) \\
 4(60 - x) &= 3(70 - x) \\
 240 - 4x &= 210 - 3x \\
 240 - 210 &= 4x - 3x \\
 \therefore x &= 30 \text{ दिन}
 \end{aligned}$$

Trick- कुल कार्य = $40 \times 60 \Rightarrow 2400$

$$\text{शेष कार्य} = 2400 - 2100 \Rightarrow 300$$

$$10 \text{ आदमी द्वारा कार्य छोड़कर जाने के दिनों की संख्या} = \frac{300}{10} = 30 \text{ दिन}$$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

व्याख्या— : 6 बजे तक घंटों की संख्या प्रदर्शित करने में घड़ी 5 दिराम लेती है जिसमें 6 सेकंड का समय लगता है इसलिए 11 बजे तक घड़ी को दस दिराम लेना पड़ेगा, जिसके लिए वह 12 सेकंड का समय लेगी।

- 182.** 5 घंटे प्रतिदिन काम करके A किसी कार्य को 8 दिन तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके B उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे?

S S C स्नातक स्वरीय परीक्षा 2008

उत्तर-(१)

व्याख्या— 5 घंटे प्रतिदिन के अनुसार, A पूरा कार्य करेगा = 5×8
 $= 40$ घंटे में

6 घंटे प्रतिदिन के अनुसार, B पूरा कार्य करेगा = 6×10
 $= 60$ घंटे में

$$(A + B) \text{ का } 1 \text{ घंटे का कार्य} = \frac{1}{40} + \frac{1}{60}$$

$$= \frac{1}{24}$$

$$\therefore \text{दोनों कार्य पूरा करेंगे} = \frac{1}{\frac{1}{3}} \text{ दिन} \Rightarrow 3 \text{ दिन}$$

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10 + 2) स्तरीय परीक्षा, 2010
उत्तर—(b)

व्याख्या— ∵ P कार्य का $\frac{1}{4}$ भाग 10 दिन में करता है।

$$\therefore P \text{ द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय} = 10 \times \frac{1}{\frac{1}{4}} \Rightarrow 40 \text{ दिन}$$

\therefore Q कार्य का $\frac{2}{5}$ भाग 15 दिन में करता है।

$$\therefore \text{पूरा कार्य करने में } Q \text{ को लगा समय} = 15 \times \frac{1}{\frac{2}{5}} \\ = 37\frac{1}{2} \text{ दिन}$$

∴ R कार्य का $\frac{1}{3}$ भाग 13 दिन में करता है।

$$\therefore \text{पूरा कार्य करने में } R \text{ को लगा समय} = 13 \times \frac{1}{\frac{1}{3}} = 39 \text{ दिन}$$

\therefore S कार्य का $\frac{1}{6}$ भाग 7 दिन में करता है।

$$\therefore \text{पूरा कार्य करने में } S \text{ को लगा समय} = 7 \times \frac{1}{\frac{1}{6}} = 42 \text{ दिन}$$

अतः स्पष्ट है कि Q उस कार्य को सबसे पहले पूरा करे गा।